

पतलू का सपना

शब्दार्थ - मटकी -मिट्टी का बर्तन या घड़ा ।

टकटकी - बिना पलक झपकाए देर तक देखना ।

तिजोरी - धन सुरक्षित रखने की जगह ।

१. दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने (✓) का निशान । लगाएं ।

(क) पतलू ने रविवार को क्या किया ?

(क) आराम (✓) (ख) काम ()

(ख) पतलू दूध से क्या बनाना चाहता था ?

(क) पनीर () (ख) दही (✓)

(ग) पतलू ने शनिवार को क्या करने की योजना बनाई ?

(क) तिजोरी बनवाने की (✓) (ख) मुर्गियां खरीदने की ()

(घ) पतलू ने शुक्रवार को क्या करने की योजना बनाई ?

(क) अंडे बेचने की (✓) (ख) मुर्गियां बेचने की ()

(ङ) पतलू का सपना कैसे टूट गया ?

(क) डंडा हाथ में उठाने से () (ख) मटकी फूटने से (✓)

२. दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करें ।

(क) पतलू को सपने देखना पसंद था । (देखना/ सोना)

(ख) वह मुर्गियां खरीदना चाहता था । (खरीदना/ सुनना)

(ग) वह घर में तिजोरी बनवाना चाहता था । (बनवाना / तुड़वाना)

(घ) उसने हवा में डंडा घुमाया । (उठाया / घुमाया)

(ङ) वह कुकड़ -कू की आवाज से सबको जगाना चाहता था । (जगाना / सुलाना)

३. सही (✓) या ग़लत (×) का निशान लगानें ।

(क) सोमवार अब आएगा ,दूध से दही जम जाएगा ।(✓)

(ख) शुक्रवार को बेचकर अंडे पैसे नहीं कमाऊंगा ।(×)

(ग) शनिवार को तिजोरी एक , अपने घर बनवाऊंगा ।(✓)

(घ) बुधवार को पैसों से , मुर्गियां खरीदने नहीं जाऊंगा ।(×)

(ङ) गुरुवार तक खिला -पिला उनको मोटा नहीं बनाऊंगा । (×)

(च) कुकड़ -कू की आवाज सुना , सबको सुबह नहीं जगाऊंगा ।(×)

(४) प्रश्नों के उत्तर :

(क) सपनों की दुनिया में कौन खो गया ?

उत्तर : पतलू सपनों की दुनिया में खो गया ।

(ख) डंडा लगा मटकी पर टंगी थी उसके सिर पर मटकी फूट गयी तो क्या होता है?

उत्तर: डंडा लगा मटकी पर टंगी थी , उसके सिर पर मटकी लगी फूट गयी तो पतलू का सपना टूट जाता है।

(ग) पतलू बुधवार को पैसा लेकर क्या खरीदने जाता है?

उत्तर: पतलू बुधवार को पैसा लेकर मुर्गियां खरीदने जाता है ।

(घ) शुक्रवार को क्या बेचकर वह ढेर सारा पैसा कमाता है?

उत्तर : शुक्रवार को वह अंडे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाता है ।

(ङ.) जोर-जोर से हवा में इधर-उधर क्या को घुमाता है?

उत्तर : जोर-जोर से हवा में इधर-उधर डंडे को घुमाता है ।

(च) सप्ताह में कितने दिन होते हैं ? कौन-कौन ?

उत्तर: सप्ताह में सात दिन होते हैं रविवार , सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ।